



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़ 1947 (श10)
(सं0 पटना 1256) पटना, शुक्रवार, 18 जुलाई 2025

सं० सि०वि०नि०(स्था०)-I-57 / 2023-240
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

20 जून 2025

विषय:- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में विभिन्न श्रेणी के कुल 04 (चार) पदों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय एवं संविदा के आधार पर उक्त पदों पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अन्तर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में वरीय विमान चालक के 02 (दो) पदों, कन्सलटेन्ट के 01 (एक) पद एवं सिविल इंजीनियर के 01 (एक) पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उक्त पदों का मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1003, दिनांक 22.01.2021 की कंडिका-4(3)(i) के आलोक में बाजार दर एवं सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के वेतन संरचना के संदर्भ में विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में गठित पारिश्रमिक निर्धारण समिति द्वारा की गयी है।

2. पारिश्रमिक निर्धारण समिति की अनुशंसा के आलोक में वर्णित पदों हेतु निर्धारित पारिश्रमिक एवं पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गई है। जो इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या।	पारिश्रमिक निर्धारण समिति द्वारा संविदा के आधार पर निर्धारित समेकित नियत पारिश्रमिक/मानदेय प्रतिमाह प्रतिपद
01	वरीय विमान चालक (Senior Aircraft Pilot)	02	₹ 4,60,000 /- (चार लाख साठ हजार रुपये मात्र), एक मुश्त। (इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भत्ता अथवा कोई अन्य राशि देय नहीं होगा।)

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या।	पारिश्रमिक निर्धारण समिति द्वारा संविदा के आधार पर निर्धारित समेकित नियत पारिश्रमिक/मानदेय प्रतिमाह प्रतिपद
02	कन्सल्टेन्ट (Consultant)	01	सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संविदा की स्थिति में बिहार सरकार के नियमानुसार देय मानदेय अथवा ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र), प्रतिमाह में जो न्यूनतम हो। (इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।)
03	सिविल इंजीनियर (Civil Engineer)	01	सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संविदा की स्थिति में बिहार सरकार के नियमानुसार देय मानदेय अथवा ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र), प्रतिमाह में जो न्यूनतम हो। (इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।)

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1256-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>